



Geared for life

## BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works :

20, K.M. Mathura Road, P.O.Box 328

P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA

Tel. : +91 (129) 4288888, E-mail : info@bglindia.com

Corporate Identity Number : 221700810371PLC034365

**BGL/SEC/NSE/3/JUNE 2020-2021**

**JUNE 29, 2020**

**The Manager (Listing)**  
**National Stock Exchange of India Ltd**  
"Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor  
Plot No. C-1, G-Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai-400051

**SYMBOL: BHARATGEAR**

**Sub: Published Audited Financial Results for the Quarter/Year ended March 31, 2020**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Audited Financial Results for the quarter/year ended March 31, 2020 published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) on June 29, 2020.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Bharat Gears Limited**

  
**Prashant Khattry**  
Head (Legal) and Company Secretary



**Encl: As above**



Mumbai Office : 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA

Tel. : +91(22) 2283 2370, Fax : +91(22) 2282 1405, E-mail : info@bharatgears.com

Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA

Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com



# Amazon India announces 20,000 seasonal jobs in customer service

FE BUREAU  
New Delhi, June 28

AMAZON INDIA ON



# Realtors resort to layoffs, pay cuts as Covid crisis hits sales

HIT BY THE

—PTI

RELIANCE INDUSTRIES HAS

—PTI

Form No. INC-26  
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Before the Central Government  
Regional Director, Northern Region, New Delhi  
in the matter of sub-section (4) of Section 13 of  
Companies Act, 2013 and clause (a) of  
sub-rule (5) of rule 30 of the Companies  
(Incorporation) Rules, 2014  
AND  
In the matter of  
**LAVANYA FASHIONS PRIVATE  
LIMITED** (CIN: U10204DL2007PTC150741)  
having its Registered Office at  
55, Second Floor, Lane - 2, Westend Marg  
Saket, New Delhi-110017  
Applicant Company / Petitioner  
NOTICE is hereby given to the General Public  
that the company proposes to make application  
to the Central Government under section 13 of  
the Companies Act, 2013 seeking confirmation of  
alteration of the Memorandum of Association of  
the Company in terms of the special resolution  
passed at the Extra Ordinary General Meeting  
held on 17<sup>th</sup> March, 2020 to enable the  
company to change its Registered office from  
"National Capital Territory of Delhi" to the  
"State of Haryana".  
Any person whose interest is likely to be affected  
by the proposed change of the registered office of  
the company may deliver either on the MCA-21  
portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor  
complaint form or cause to be delivered or send  
by registered post his/her signature supported  
by an affidavit stating the nature of his/her  
interest and grounds of opposition to the  
Regional Director, Northern Region, Ministry of  
Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit  
Durgadas Aryodaya Bhawan, CGO Complex,  
New Delhi-110003 within fourteen days from the  
date of publication of this notice with a copy to  
the applicant company of its Registered Office at  
the address mentioned below:-  
55, Second Floor, Lane - 2, Westend Marg  
Saket, New Delhi-110017  
For & on behalf of Applicant  
**LAVANYA FASHIONS PRIVATE LIMITED**  
Sd/-  
**HARPREET SINGH**  
(Director)  
Date : 29.06.2020  
Place : New Delhi  
CIN: U10204DL2007PTC150741

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**  
(A Govt. of India Undertaking)  
Regd. Off.: C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017, INDIA  
Tel. No.: +91-11-29565666 Fax: +91-11-26854000  
Web: [www.ircon.org](http://www.ircon.org), E-mail: [info@ircon.org](mailto:info@ircon.org) CIN: L45203DL1976GOI008171  
**ADDENDUM TO THE NOTICE PUBLISHED ON 20<sup>th</sup> JUNE, 2020**  
With reference to our Notice of Board Meeting dated 19<sup>th</sup> June, 2020 published in Newspaper on  
20<sup>th</sup> June, 2020, it is hereby informed that the Meeting of the Board of Directors which was scheduled  
on Tuesday, 30<sup>th</sup> June, 2020 to inter-alia, consider and approve the Audited Financial Results  
(Standalone & Consolidated) for the quarter and year ended on 31<sup>st</sup> March 2020 and recommend  
final dividend, if any, for the financial year 2019-20, subject to approval of shareholders at the AGM,  
has been postponed and rescheduled on Friday, 10<sup>th</sup> July, 2020, in view extension of time vide  
SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/106 dated 24<sup>th</sup> June, 2020.  
This information is also available on the website of the Company viz., [www.ircon.org](http://www.ircon.org) and on the  
website of the Stock Exchanges viz., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)  
For Ircon International Limited  
Sd/-  
Ritu Arora  
Company Secretary & Compliance Officer  
Place : New Delhi  
Date : 26.06.2020

# NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

Sector - 33, Faridabad, Haryana - 121 003 (India)

CIN: L40101HR1975GOI032564

## EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2020

(₹ in Crore)

S.No	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.3.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.3.2020	31.03.2019
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1)	Total Income from operations	1,913.62	1,795.07	1,950.34	8,735.41	8,161.18	2,170.41	2,159.29	2,156.41	10,008.07	8,982.87
2)	Net Profit before Tax (before Exceptional items)	448.08	451.49	1,154.85	3,608.17	3,744.78	461.85	157.18	1,328.70	3,615.22	4,159.41
3)	Net Profit before Tax (after Exceptional items)	448.08	451.49	1,154.85	3,608.17	3,744.78	461.85	157.18	1,328.70	3,615.22	4,159.41
4)	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)										
	- Owners of the company	382.91	403.66	492.29	3,007.17	2,630.55	147.21	510.13	542.44	2,874.61	2,595.61
	- Non-controlling interest	-	-	-	-	-	91.43	129.00	60.47	450.11	240.18
5)	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit and Other Comprehensive Income (after tax)]										
	- Owners of the company	446.37	386.49	466.53	3,006.55	2,618.14	209.81	492.92	516.37	2,873.02	2,583.06
	- Non-controlling interest	-	-	-	-	-	90.60	128.97	60.18	449.19	240.06
6)	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03
7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				19,938.78	19,169.70				21,325.58	20,752.78
8)	Net Worth				29,983.81	29,214.73				31,370.61	30,797.81
9)	Paid-up debt capital				24,526.72	20,666.99				24,529.29	20,666.99
10)	Debt equity ratio				0.82	0.71				0.78	0.67
11)	Earning per share (Basic and Diluted) (Equity shares, face value of ₹ 10/- each)										
	- Before movements in Regulatory Deferral Account Balances (in ₹)	0.34	0.40	(0.07)	2.65	1.77	0.05	1.12	(0.02)	3.10	1.71
	- After movements in Regulatory Deferral Account Balances (in ₹)	0.38	0.40	0.49	2.99	2.57	0.15	0.51	0.54	2.86	2.54
12)	Capital redemption reserve				2,255.71	2,255.71				2,255.71	2,255.71
13)	Debenture (Bond) redemption reserve				1,948.38	2,193.35				1,948.38	2,193.35
14)	Debt service coverage ratio (DSCR)				3.41	3.35				3.45	3.61
15)	Interest service coverage ratio (ISCR)				7.53	7.68				7.63	8.28

**Note:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 & 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the website of Stock Exchange(s) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website
- Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of  
NHPC Ltd.  
Sd/-

(MAHESH KUMAR MITTAL)  
DIRECTOR (FINANCE)  
DIN -02889021

Place : Faridabad  
Date : 27.06.2020

<div><div><div><div></div><div>BHARAT GEARS LIMITED</div></div><div>Regd. Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana) Ph.: +91 (129) 4288888 Fax: +91 (129) 4288822-23 E-mail: <a href="mailto:info@bglindia.com">info@bglindia.com</a> Web: <a href="http://www.bharatgears.com">www.bharatgears.com</a> CIN: L29130HR1971PLC034365</div></div></div>						
<div><div><div><div></div><div>Geared for Life</div></div></div></div>						
STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2020						
(₹ in lacs)						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Current year ended	Previous year ended
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		(Audited) Refer Note 4	(Unaudited)	(Audited) Refer Note 4	(Audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	11,061	10,492	14,368	46,312	59,440
2.	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(338)	(1,075)	51	(2,482)	1,945
3.	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(338)	(1,075)	51	(2,482)	1,945
4.	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(218)	(800)	38	(1,877)	1,253
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(228)	(812)	(109)	(1,950)	1,067
6.	Equity share capital	931	931	814	931	814
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	7,027	8,035	8,035	7,027	8,035
8.	Earnings per share [Face value of ₹ 10/- each (* not annualised)] Basic and diluted (₹)	*(2.34)	*(8.60)	* 0.45	(20.38)	14.84
<b>Notes:</b>						
1. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended 31 March, 2020 audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended 31 March, 2020 audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites ( <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> ) and Company's website ( <a href="http://www.bharatgears.com">www.bharatgears.com</a> ).						
2. The Company has adopted Ind AS 116 'Leases' effective 01 April, 2019. This has resulted in recognising right-of-use asset and corresponding lease liability of ₹ 485 lacs as at 01 April, 2019. Resulting impact in the financial results for the quarter and year ended 31 March, 2020 is an increase of ₹ 49 lacs and ₹ 201 lacs in depreciation for the right-of-use assets, an increase of ₹ 11 lacs and ₹ 51 lacs in finance costs on lease liability and a decrease in lease rent cost of ₹ 58 lacs and ₹ 235 lacs respectively.						
3. In terms of approval of Board of Directors at their meeting held on 09 October, 2018, the Company on 10 May, 2019 allotted 11,63,262 equity shares at a Price of ₹ 105 per share (including premium of ₹ 95 per share) to existing shareholders on rights basis. Pursuant to this allotment, the securities premium stands increased by ₹ 1054 lacs net of share issue expenses of ₹ 51 lacs. The proceeds from Rights Issue have been utilised for the intended purposes. Basic and diluted earnings per share for the quarter and year ended 31 March 2019 have been accordingly adjusted for effect of Rights Issue.						
4. The figures of the quarters ended 31 March, 2020 and 31 March, 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial years and the unaudited published year-to-date figures upto 31 December for respective years, which were subjected to limited review.						
5. Previous period's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.						
For and on behalf of the Board of Directors Sd/- SURINDER PAUL KANWAR Chairman & Managing Director Date: 28 June, 2020						

The Indian EXPRESS

JOURNALISM OF COURAGE

The Indian EXPRESS

E-ADDA

WHERE NEWSMAKERS DROP IN FOR A CANDID CHAT.

Express E-Adda hosts

Uday Shankar

President, The Walt Disney Company APAC,  
Chairman, Star & Disney India and  
Senior Vice President, FICCI

in conversation with

Anant Goenka

Executive Director  
The Indian Express

Sandeep Dwivedi

National Sports Editor  
The Indian Express

By invitation only.

Use #ExpressAdda & join the conversation, exclusively on:  

Indianexpress.com

twitter.com/IndianExpress

facebook.com/IndianExpress

Join us on  

zoom

financialexp.epapr.in

New Delhi



## लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया जिम्मा

# सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे कोरोना वार्ड

पंकज रोहिला

कोरोना से लड़ रहे मरीजों की देखरेख में कोई कमी न रहे इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों के वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। इससे डॉक्टर लगातार मरीजों पर नजर बनाए रख सकेंगे।

इसके साथ ही अब कोरोना अस्पतालों में अलग से सहायता डेस्क बनाने और मरीज के साथ एक सहायक को रोकने के लिए भी मंजूरी दी गई है। अस्पतालों को इसके लिए इंतजाम करना होगा। दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरे

*एकांतवास को अस्पतालों से जोड़ा जा रहा है :*

लगाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की सौंपी है। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंघला ने यह आदेश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने मरीज के परिवार के एक सदस्य को अस्पताल

में रुकने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए अस्पताल के अंदर एक विशेष क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जहां पर इन लोगों को ठहराया जा सके। आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों में मरीजों की सीसीटीवी फुटेज



को ऑनलाइन विशेष टीमों से भी जोड़ा जाना चाहिए। सभी अस्पतालों को इसका पालन करना होगा। इसी प्रकार सहायता डेक्स पर कोई भी नागरिक अपने मरीज के इलाज के संबंध में जानकारी ले सकेगा। ये सभी काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बाद शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार को अस्पतालों के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जो भी अस्पताल इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान सचिव स्वास्थ्य की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है।

## दिल्ली मानसून में पसीने से तर

जनसत्ता संवाददाता

मानसून आने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी व उमस लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन गर्मी अभी और परेशान करेगी। पारा 41 के भी पार जाने के आसार हैं। हालांकि सोमवार को हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। लेकिन गर्मी से राहत की संभावना नहीं है।



दिल्ली सहित एनसीआर में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। 28 जून से चार जुलाई के बीच राजस्थान में मौसम का हाल गर्म रहने वाला है। कुछ दिनों से राजस्थान में बारिश में बहुत कमी आ गई है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक 2013 के बाद यह पहली बार है जब तय समय से पहले देश भर में मानसून पहुंचने वाला है। हालांकि कुछ इलाकों में यह कमजोर पड़ चुका है। अगले हफ्ते में तेजी पकड़ने की संभावना है।

### जनसत्ता संवाददाता

उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों ने सभी जेलों से अधिक मास्क बनाए हैं। वे हर रोज 5000 से अधिक मास्क बना रहे हैं। वहीं, राजस्थान की एक जेल के बंदियों ने अपने भोजन का एक हिस्सा बाहर के लोगों को दान करने की पहल की है। कुछ इसी तरह के किस्से देशभर की जेलों से इस कोरोनाकाल में बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही 51 दिन के कोरोनाकाल पर बनी 51 कहानियां जेल से कैदियों का योगदान देश को बताएंगी। ये कहानियां यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगी।

यह पहल 'तिनका-तिनका जेल सुधार' चैनल का एक हिस्सा है। चैनल कैदियों और जेल कर्मचारियों के योगदान पर केंद्रित है। इस फाउंडेशन की संस्थापक जेल सुधारक वर्तिका नंदा हैं और इसका मकसद भारत भर की जेलों को आपस में जोड़ना है।

जानकारी के मुताबिक, इसके माध्यम से 51 दिनों तक हर दिन 2 से 3 मिनट की अवधि की एक कहानी दुनिया को दिखाई

जाएगी। इसने तिनका तिनका जेल समाचार को अपनी तरह का पहला यूट्यूब समाचार चैनल बना दिया है। इस पर केवल कैदियों से संबंधित खबरें हैं। भारत में करीब 1400 जेल हैं और इनकी कुल क्षमता 3,96,223 कैदियों की है। यह सभी वीडियो सार्वजनिक हित में बनाए गए हैं। चैनल का उद्देश्य जेल व समाज के बीच की खाई को पाटना है ताकि जेलों को काम के लिए एक मजबूत मंच मिल सके। इन कहानियों में हर कहानी जेल का ऐतिहासिक महत्व, बाहरी दुनिया के लिए कैदियों के योगदान का दस्तावेजीकरण करना और जेलों के विभिन्न पहलू पर सबका ध्यान आकर्षित करना है। चैनल ने केंद्रीय, जिला और उप-जेलों के साथ महिलाओं की जेलों से कहानियों को शामिल किया है। हर जेल की एक कहानी इस चैनल पर बताई जाएगी। अब तक इन्हें जेल अधिकारियों और कैदियों के एक छोटे समूह के बीच साझा किया जा रहा था। 51 दिनों के पूरा होने पर यह दस्तावेज बंदियों और जेल कर्मचारियों के प्रति सम्मान के रूप में सामने आया है।

नई दिल्ली, 28 जून। राज्य सरकार के जीटीबी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में नामित करने के बाद से सभी भर्ती मरीजों को स्वस्थ संतुलित पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जल्दी ही इन्हें फलों का रस व नारियल पानी वगैरह भी दिया जाएगा। आहार विभाग दिन में छह बार भोजन परोस रहा है। (जसं)

नई दिल्ली। रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली वालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए देश की सभी एजेंसियों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सहयोग मिल रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कहा कि दिल्ली को केंद्र सरकार, धार्मिक संगठन जैसे राधा स्वामी सत्संग, अक्षरधाम मंदिर ट्रस्ट समेत होटल, बैंकवेट व सामाजिक संगठनों से भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जून की शुरुआत में एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया था। इसके बाद मरीजों के लिए अतिरिक्त बिस्तर की आवश्यकता थी। (जसं)

**इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
पंजी. कार्यालय : सी-4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 (भारत)  
दूरभाष : +91-11-29565666 फ़ैक्स : +91-11-26854000  
वेबसाइट : [www.ircn.org](http://www.ircn.org) ईमेल : [info@ircn.org](mailto:info@ircn.org) CIN- L45203DL1976GOI008171

**20 जून, 2020 को प्रकाशित सूचना में अनुरोध**  
दिनांक 20 जून, 2020 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हमारी **बोर्ड बैठक** दिनांक 19 जून, 2020 की सूचना के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, जो कि मंगलवार, 30 जून, 2020 को अद्योपस्थित की जानी थी, जिसमें अन्य मुद्दों के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों (स्टैटमैन्ट्स एवं रमिनेन्स) पर विचार एवं अनुमोदन करने तथा वार्षिक आम सत्र में शेयर धारकों के अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम लाभाली की संपूर्ण विवरण, यदि कोई हो, की कार्यवाही की जानी थी, को स्थगित कर दिया गया है तथा सत्रों के दिनांक 24 जून, 2020 के परिपक्व होने (एगेंडा / वार्षिक / वित्तीय वर्ष / 2020 / 1986 द्वारा जारी समग्र-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अब **बैठक पुनरावृत्ति 10 जुलाई, 2020 को अद्योपस्थित** की जाएगी। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.ircn.org](http://www.ircn.org) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट तथा [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।  
कृते इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, /—  
स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26.06.2020  
रितु, अरोड़ा  
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

**भारत गीयर्स लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)  
फ़ैक्स: \_\_\_\_\_  
ई-मेल: \_\_\_\_\_  
वेबसाइट: \_\_\_\_\_  
सीआईएन: \_\_\_\_\_

**Geared for Life**

**31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का वर्णन**  
(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2020 (अंकेक्षित) दिग्दर्शी 4 देखें	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित) दिग्दर्शी 4 देखें	समाप्त साल वर्ष 31.03.2020 (अंकेक्षित)	समाप्त पूरे वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	11,061	10,492	14,368	46,312	59,440
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	(338)	(1,075)	51	(2,482)	1,945
3.	अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	(338)	(1,075)	51	(2,482)	1,945
4.	अवधि के लिए कर के पश्चात शुद्ध लाभ (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	(218)	(800)	38	(1,877)	1,253
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है]	(228)	(812)	(109)	(1,950)	1,067
6.	समता अंश पूंजी	931	931	814	931	814
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जिसे पूर्व वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।	7,027	8,035	8,035	7,027	8,035
8.	प्रतिअंश आय [₹10/- प्रत्येक (*अवार्धिकृत)] मूल एवं तरल (₹)	*(2.34)	*(8.60)	* 0.45	(20.38)	14.84

**टिप्पणी:**

- उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गये 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) व कम्पनी की वेबसाइट ([www.bharatgears.com](http://www.bharatgears.com)) पर उपलब्ध हैं।
- कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 से इण्ड ए एस 116 'पट्टों' को प्रभावी के रूप में अपनाया है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 तक राइट-ऑफ-यूज एसेट एवं समान लीज लायबिलिटी के लिए ₹485 लाख की मान्यता दी है। जिसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के वित्तीय परिणामों के परिणाम का प्रभाव राइट-ऑफ-यूज एसेट के मूल्यां हास में क्रमशः ₹49 लाख एवं ₹201 लाख की वृद्धि, लीज देनदारी पर वित्त लागतों में ₹11 लाख तथा ₹51 लाख की वृद्धि तथा लीज रेंट लागत में ₹68 लाख एवं ₹235 लाख की कमी हुई है।
- निदेशक मंडल की 09 अक्टूबर, 2018 की बैठक में दी हुई मंजूरी के आधार पर कम्पनी द्वारा 10 मई, 2019 को मौजूदा शेयरधारकों को अधिकारिक आधार पर रुपये 105 प्रति शेयर (रुपये 95 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) 11,63,262 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया गया है। इस आवंटन के पश्चात प्रतिभूति प्रीमियम में ₹1054 लाख (₹51 लाख शेयर इश्यू खर्च से शुद्ध) की वृद्धि हुई है। शेयरों के आवंटन से प्राप्त आय का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक की मूल एवं तरल प्रति अंश आय को तदनुसार राइट्स इश्यू के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है।
- 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्षों के संबंध में अंकेक्षित आंकड़ों तथा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त अवधि के अंकेक्षित प्रकाशित आंकड़ों (जो सीमित समीक्षा के अधीन थे) के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- पूर्व अवधि के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ता/—  
सुरिंदर पॉल कंवर  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

तिथि : 28 जून, 2020

**लोकल से ग्लोबल**  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार  
**हुनर हाट**  
क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर का मेगा मिशन  
भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों एवं पारम्परिक पकवानों के खानसामाओं को मौका-मार्केट-मुहैया कराने का प्रामाणिक प्लेटफॉर्म। देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले 'हुनर हाट' में भाग लेने के इच्छुक 'हुनर के उस्तादों' से आवेदन आमंत्रित हैं।  
हुनर हाट के प्रस्तावित स्थान  
• चंडीगढ़ • जयपुर • प्रयागराज • सूरत/अहमदाबाद/वड़ोदरा • बेंगलुरु • कोच्चि/चेन्नई • मुम्बई • हैदराबाद • गोवा • लखनऊ • दिल्ली, इंडिया गेट • इंदौर • रांची • गुवाहाटी

**स्वदेशी दस्तकारों-शिल्पकारों-कारीगरों के स्वदेशी उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी**  
मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस)  
मौलाना आज़ाद कैम्पस, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रवेश द्वार के सामने, पहाड़ गंज की ओर, नई दिल्ली -110055,  
फोन: 011-23586447, 9599060695, 9870472888, वेबसाइट: [www.manassd.ind.in](http://www.manassd.ind.in)  
आवेदक अपना आवेदन [hunarhaat@gmail.com](mailto:hunarhaat@gmail.com), [dir-manas@nic.in](mailto:dir-manas@nic.in) पर भी शेयर कर सकते हैं।  
• चुने गए आवेदकों को प्रस्तावित हुनर हाट में भाग लेने के बारे में सूचित किया जाएगा।

**हुनर को हौसला**  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय  
भारत सरकार  
**कौशल को काम**  
[www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in)  
Follow us on: [f](https://www.facebook.com/hunarhaat17) /hunarhaat17 [t](https://twitter.com/hunarhaat) /hunarhaat [i](https://www.instagram.com/hunarhaat) /hunarhaat

दृश्य 2710113/0003/2021